

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1970/पीए 5, 1892

No. 458]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1970/PAUSA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

(Civil Supplies Organisation)

ORDERS

New Delhi, the 26th December 1970

S.O. 4092.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Order,—

(a) "copper" means electrolytic copper specified in specification No. IS. 613 of 1964;

(b) "electrical cables and wires" means the electrical cables and wires (bare or insulated) as described in the Schedule annexed to the Electrical Cables and Wires Control Order, 1970.

(c) "manufacturer" means any person who is engaged in the manufacture of electrical cables and wires by any process whatsoever;

(1981)

3. Prohibition of use of copper in manufacture of electrical cables and wires.—

(1) No manufacturer shall use or cause to be used copper in the manufacture of electrical cables and wires except with the prior permission of the Central Government.

(2) Nothing contained in sub-clause (1) shall apply to the use of copper—

(i) in the manufacture of the electrical cables and wires specified in the Schedule annexed to this Order, subject to the conditions if any, specified therein; or

(ii) in the manufacture of any electrical cables and wires for the purpose of export which are covered by firm orders and backed by irrevocable letters of credit.

4. Power to enter, search, seizure, etc.—(1) Any police officer, not below the rank of an Assistant Sub-Inspector or any other person authorised in this behalf by the Central Government, or within their respective jurisdictions, by a State Government or the Administrator of a Union territory, may with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that the provisions of this Order has been complied with—

(i) enter upon and search or authorise any person to enter upon and search, any premises, any vehicle or vessel in which such person has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be, contravened;

(ii) seize or authorise the seizure of copper in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be contravened.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

SCHEDULE

[See clause 3 (2)]

<i>Description of electrical cables and wires</i>	<i>Conditions of manufacture.</i>
(1)	(2)
(1) Bare copper conductors other than strips.	with the permission of the Director General of Technical Development.
(2) Bare copper strips for winding of transformer, motor and generator.	against orders placed directly on the manufacturer by firms registered with the Director General of Technical Development or State Directors of Industries for the manufacture of transformers, motors and generators, subject to the condition that copper is supplied by them.
(3) Enamelled winding wire and strips.	Nil.
(4) Cotton, silk, paper, fibre, plastic, covered wires and strips.	Ditto.
(5) Tinsel wire.	Ditto.
(6) Tinned copper wire including fuse wire.	Ditto.
(7) Mining cables (Paper insulated lead sheathed)	(a) against orders placed directly on the manufacturer by the Director General, Supplies and Disposals and public sector corporations engaged in mining. (b) against orders from others certified by the Director General, Mines Safety, Dhanbad as for bonafide use in mines.
(8) Barthing braids.	Nil

(1)	(2)
(9) Railway signalling cable with or without screening by aluminium wires. (10) Grooved contact wire. (11) Coupling cables for Railways.	} against specific orders placed, directly on the manufacturer. } by Director General Supplies and Disposal or Railways.
(12) Control cables (IS : 1554 Part I—1954.) (Armoured or unarmoured with minimum 4 cores.)	Nil.
(13) Rubber insulated cables for mines (IS : 4817—1968)	Nil.
(14) Panel wiring and instrument wiring cables (IS : 694 Part I).	
(a) Copper conductor—PVC insulated—single core—sheathed (conductor diameters 2·25 mm and 2·8 mm).	Nil.
(b) Copper conductor—PVC insulated—single core—sheathed or unsheathed (conductor diameters from 1 mm to 2 mm.)	} against specific orders placed directly on the manufacturer by. (i) To: State Electricity Undertakings with the approval of the Chairman of the Electricity Board ; (ii) Other Electricity Undertakings sponsored by Central Water & Power Commission. (iii) Others—with the permission of Director General of Technical Development.
(15) Switchboard cables.	} against orders placed on the manufacturer by Director General Supplies and Disposals Post and Telegraphs and M/s. Indian Telephone Industries.
(16) Jumper wire PVC.	Ditto.
(17) Wire PVC (S/WS—IIIA).	Ditto.
(18) Signalling cables.	Ditto.
(19) Cable leading in.	Ditto.
(20) Cable carrier twin.	Ditto.
(21) PVC drop wire.	Ditto.
(22) Cable house wiring PVC.	Ditto.
(23) Cable aerial self-supporting combined.	Ditto.
(24) Cable polythene twin screen for use in subscribers telephone net work.	Ditto.
(25) Paper insulated lead sheathed telephone cables.	Ditto.
(26) Coiled coil and telephone cables.	Ditto.
(27) Cables and Switchboard cables.	Ditto.
(28) Dry core cables—paper insulated for communication.	Ditto.
(29) Coaxial cable for communication.	Ditto.
(30) Field cable tested.	} against orders placed on the manufacturer by Defence or Director General Supplies and Disposals.

(1)	(2)
(31) Airport Lighting cables (CALL 828 & FALL 824.)	against specific orders placed on the manufacturer by Director General Supplies [and Disposals, Civil Aviation or Defence.
(32) Ship wiring cable—B.S. 883 SBS, 16, 17, 21 IS : 434 (Part-I—1964).	against orders placed on the manufacturer by— Director General Supplies and Disposals. (ii) Mazagon Dock Ltd. (iii) Garden Reach Workshop Ltd. (iv) Hindustan Shipyard Ltd.
(33) Flexible cables not otherwise specified.	the diameter of individual strands should not be more than 75 mm.

[No. F. 26(18)C.S. II/70.]

औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

(सिबिल प्रवाय संगठन)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1970

का० प्रा० 4092.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—

(1) यह आदेश तांबा (बिद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में—

(क) “तांबा” से 1964 के विनिर्देश सं० आई एस 613 में विनिर्दिष्ट बिद्युत-विश्लेषी तांबा अभिप्रेत है ;

(ख) "विद्युत केबिल और तार" से विद्युत केबिल और तार नियंत्रण आदेश, 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित विद्युत केबिल और तार (नंगी या विद्युत्सरोधी) अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी प्रक्रिया द्वारा विद्युत केबिलों और तारों के विनिर्माण में लगा हुआ हो :

3. विद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में तांबे के उपयोग का प्रतिबंध ।

(1) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय कोई भी विनिर्माता विद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में तांबे का उपयोग न तो करेगा, न करवाएगा ।

(2) तांबे के उपयोग के लिए उपखण्ड (1) में की कोई बात —

(i) इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्युत केबिलों और तारों के विनिर्माण को उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो,

(ii) निर्यात के प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे विद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण को जो फर्म के आदेशों के अन्तर्गत आते हों, और जिनके लिए अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय-पत्र हो, लागू नहीं होगी ।

4. प्रवेश करने, तलाशी करने, अभिग्रहण करने आदि की शक्ति ।

(1) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप निरीक्षक पंक्ति से नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा या अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या इस संबंध में अपना समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश के उपबन्धों का पालन किया गया है—

(i) किसी भी परिसर, किसी भी यान या जलयान में, जिसकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास विश्वास करने का ऐसा कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश और तलाशी कर सकेगा या किसी भी व्यक्ति को प्रवेश या तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ii) तांबे का अभिग्रहण या उसका अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का ऐसा कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 102 और 103 के उपबन्ध यावताक्य इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

अनसूची

[खण्ड 3 (2) देखिए]

विद्युत केबिल और तार का वर्णन	विनिर्माण की शर्तें
1	2
(1) पट्टियों से भिन्न नंगे तांबे की तार	महानिदेशक, तकनीकी विकास की अनुज्ञा से।
(2) ट्रांसफॉर्मर, मोटर और जनरेटर में लपेटने के लिए नंगे तांबे की पट्टियाँ	महानिदेशक, तकनीकी विकास या राज्य के औद्योगिक निदेशकों के यहां ट्रांसफॉर्मरों, मोटर और जनरेटरों के लिए रजिस्ट्रीकृत फर्मों द्वारा विनिर्माता को सीधे ही दिए गए आदेशों के आधार पर इस शर्त के अधीन रहते हुए कि तांबे का प्रदाय उसके द्वारा किया जाए।
(3) इनेमलित लपेटन तार और पट्टियाँ	कुछ नहीं
(4) सूत, रेशम, कागज, फाइबर, प्लास्टिक से अकृत तार और पट्टियाँ	—यथोक्त—
(5) टिन्सल तार	—यथोक्त—
(6) कलईदार तांबे की तार जिसमें फ्यूज-तार सम्मिलित हैं	—यथोक्त—
(7) खान केबिल (कायज से रोबी सीसा-आच्छादित)	(क) महानिदेशक प्राति, और निपटान द्वारा तथा खनिज उद्योग में लगे हुए सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा विनिर्माता को सीधे ही दिए गए आदेशों के आधार पर। (ख) अन्यो के आदेशों पर, जिन्हें महानिदेशक खान सुरक्षा, धनबाद ने खानों में सद्भावी उपयोग के लिए प्रमाणित कर दिया हो।
(8) आर्थींग ब्रेड्स	कुछ नहीं
(9) रेल सिगनल केबिल जिसपर एल्यूमिनियम की तारों का आवरण हो या न हो	} महानिदेशक, प्राति और निपटान या रेलों द्वारा सीधे ही विनिर्माता को दिए गए आदेशों के आधार पर।
(10) ग्रीड कन्टैक्ट तार	
(11) रेलों के लिए कप्लिंग केबल	

- (12) निरंतरण केबल (आई एस: 1554 कुछ नहीं
भाग I -1964) (न्यूनतम 4 कोरों से
कवचित या अकवचित)
- (13) तारों के लिए खड़ रोधी केबल (आई कुछ नहीं
एस: 4817-1968)
- (14) पैनल वायरिंग और उपकरण वायरिंग कुछ नहीं
केबल (आई एस: 694 भाग I)
- (क) तांबा चालक-पी वी सी रोधी-
एकल कोर-आच्छादित या
अनाच्छादित (चालक का व्यास
2.25 मिमि० और 2.8 मिमि०)
- (ख) तांबा चालक-पी वी सी रोधी-एकल निम्नलिखित द्वारा सीधे विनिर्माता को दिए
कोर-आच्छादित या अनाच्छादित गए विशिष्ट आदेशों के आधार पर
(चालक का व्यास 1 मिमि० से
2 मिमि० तक)
- (i) विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के
अनुमोदन से राज्य विद्युत
बोर्ड द्वारा
- (ii) केन्द्रीय जल और विद्युत
आयोग द्वारा प्रायोजित अन्य
विद्युत उपकरणों द्वारा
- (iii) महानिदेशक, तकनीकी
विकास की अनुज्ञा से अन्य
द्वारा
- (15) स्विच बोर्ड केबल महा निदेशक, पूति और निपटान, शाक्तार और
मेसर्स भारतीय टेजीफोन उद्योग द्वारा
विनिर्माता को दिए गए आदेशों के आधार पर
- (16) जम्पर तार पी वी सी -यथोक्त-
- (17) तार पी वी सी (एस/डब्ल्यू एस-IIIए) -यथोक्त-
- (18) सिगनल केबल यथोक्त-

1	2
(19) केबिल, लिडिंग इन	महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, डाकतार और मेसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा विनिर्माता को दिए गये आदेशों के आधार पर
(20) केबिल केरियर स्विच	—यथोक्त—
(21) पी बी सी ड्राप तार	—यथोक्त—
(22) केबिल हाउस वायरिंग पी बी सी	—यथोक्त—
(23) केबिल एयरियल वेल्क सपोर्टिंग कम्प्राइन्ड	—यथोक्त—
(24) उपभोक्ताओं के सभी टेलीफोनों के प्रयोग के लिए केबिल पोलियीन द्विवन स्क्रीन	—यथोक्त—
(25) कागज रोधी सीधे-ग्राउन्डित टेलीफोन केबिल	—यथोक्त—
(26) कुंडलित कुंडली और टेलीफोन केबिल	—यथोक्त—
(27) केबिल और स्विच बोर्ड केबिल	—यथोक्त—
(28) ड्राई कोर केबिल-संचार के लिए कागज से रोधी	—यथोक्त—
(29) संचार के लिए समाक्ष केबिल	—यथोक्त—
(30) फील्ड केबिल परीक्षित	रक्षा या महानिदेशक पूर्ति और निपटान द्वारा विनिर्माता को दिए गए आदेशों के आधार पर
(31) हवाई अड्डा प्रकाश केबिल (काल 828 और फाल 824)	महानिदेशक पूर्ति और निपटान, मित्रिल विमानन या रक्षा द्वारा विनिर्माता को दिए गए विनिर्दिष्ट आदेशों के आधार पर
(32) पोन वायरिंग केबिल-बी०एम० 883 एम ई एस, 16, 17, 21, आई एस 434 (भाग I- 1964)	निम्नलिखित द्वारा विनिर्माता को दिए गए आदेशों के आधार पर — (i) महानिदेशक, पूर्ति और निपटान, (ii) मैजेंगान डाक लिमिटेड, (iii) गार्डेन रीच वर्कगाप लिमिटेड, (iv) हिन्दूस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
(33) नमूने केबिल जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	अलग अलग स्टैंडर्डों का व्यास 75 मि० । अधिक न हो ।

S.O. 4093.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the **Electrical Cables and Wires Control Order, 1970.**

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Order,—

- (a) "Controller" means the officer appointed by the Central Government to perform the functions of Controller under this Order;
- (b) "dealer" means any person who carries on the business of buying or selling electrical cables and wires whether or not in conjunction with other business;
- (c) "electrical cables and wires" means the electrical cables and wires (bare or insulated), as described in the Schedule annexed to this Order;
- (d) "manufacturer" means any person who is engaged in the manufacture of electrical cables and wires by any process whatsoever;
- (e) "sale price" means the amount payable to a manufacturer or dealer as consideration for the sale of electrical cables and wires inclusive of any charges for cost of freight or delivery, but exclusive of any sum charged as tax on the electrical cables and wires as a finished product.

3. Control of sale price.—No manufacturer or dealer or other person shall sell or agree to sell or otherwise dispose of any electrical cable or wire manufactured in India for a sale price exceeding the sale price fixed in pursuance of clause 4.

4. Fixation of sale price.—The Central Government or the Controller, having regard to the estimated cost of production of electrical cables or wires manufactured in India may, from time to time, by notification in the Official Gazette, fix the sale price of the electrical cables or wires so manufactured, and different sale prices may be fixed in respect of different types of electrical cables or wires or in respect of the electrical cables or wires manufactured in different areas or different factories.

5. Price list to be displayed at place of business.—Every dealer shall display at a conspicuous part of the premises where he carries on his business in electrical cables or wires, a list of sale prices of the electrical cables or wires kept for sale by him, in such a manner as to be easily accessible for consultation by any customer.

6. Manufacturer and dealer not to withhold sale.—No manufacturer or dealer shall withhold from sale any electrical cables or wires, manufactured in India and ordinarily kept for sale by him.

7. Power to give directions, call for information, etc.—The Controller may, by order,—

- (a) direct any manufacturer or dealer to maintain such records relating to the manufacture or purchase or sale of, or other transaction in, electrical wires and cables, as the Controller may specify in the order;
- (b) specify the manner in which a manufacturer or dealer shall keep accounts of any manufacture or purchase or sale of or other transaction in, electrical wires and cables;
- (c) require any manufacturer or dealer to furnish within such period or at such intervals, such information, returns or reports relating to the manufacture or purchase or sale of, or other transaction in, electrical wires and cables in such form as may be specified in the order;
- (d) give directions to any manufacturer or dealer for the disposal of electrical cables and wires, including sub-standard production thereof, and to the processing of scrap;

- (e) issue such other directions to any manufacturer or dealer as may be necessary to carry out the purposes of this Order.

8. Power to enter, search, seizure, etc.—(1) Any police officer not below the rank of an Assistant sub-Inspector or any other person authorised in this behalf by the Central Government, or within their respective jurisdictions, by a State Government or the Administrator of a Union Territory, may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that the provisions of this Order has been complied with,—

- (i) enter upon and search or authorise any person to enter upon and search, any premises, any vehicle or vessel in which such person has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being or is about to be contravened;
- (ii) seize or authorise the seizure of any electrical cables or wires in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be contravened.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

9. Compliance with orders and directions.—Every manufacturer or dealer to whom any order or direction is issued under this Order, shall comply with such order or direction.

SCHEDULE

[See Clause 2(c)]

Description of Electrical Cables and Wires

1. Bare copper rods, wires and strips of all sections.
2. Braided copper conductors.
3. Enamelled copper/aluminium rods, wires and strips of all sections.
4. Cotton, silk, paper, fibre, glass tape, etc. covered copper/aluminium rods, wires and strips of all sections.
5. Copper/aluminium rods, wires and strips of all sections coated with tin and/or other metals.
6. Copper fuse wire.
7. Copper clad steel wire.
8. Grooved contact wire.
9. Paper insulated lead sheathed cables with copper/aluminium conductors.
10. Rubber insulated cables with copper/aluminium conductor.
11. Rubber insulated flexible trailing cables with copper/aluminium conductors.
12. P. V. C./Polyethylene/Cross linked Polyethylene/Plastic cables with copper/aluminium conductors.
13. Aluminium conductors steel reinforced/All aluminium conductors.
14. Coaxial and Dry core cables for communication.

15. Other types of cables and wires with copper/aluminium conductor not mentioned above.

Note.—For the purposes of this Schedule;—

- (1) "copper" means electrolytic copper (IS: 613 of 1964).
(2) "aluminium" means electrolytic aluminium (IS: 4026 of 1967).

[No. F. 26(18)C.S. II/70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० आ० 4093.—प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—

- (1) यह आदेश वैद्युत केबिल और तार नियंत्रण आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं:—इस आदेश में, :—

- (क) "नियंत्रक" से इस आदेश के अधीन नियंत्रक के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;
(ख) "व्यवहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वैद्युत केबिल और तारों के क्रय या विक्रय का कारबार करता है, चाहे यह अन्य कारबार के साथ-साथ हो अन्यथा न हो।
(ग) "वैद्युत केबिल और तार" से वैद्युत केबिल और तार (नंगी या वैद्युत रोपी) अभिप्रेत हैं, जैसी कि इस आदेश से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित हैं ;
(घ) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी प्रक्रिया द्वारा वैद्युत केबिलों और तारों के विनिर्माण में लगा हुआ हो ;
(ङ) "विक्रय कीमत" वैद्युत केबिलों और तारों [के लिए विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में विनिर्माता या व्यवहारी को संदेय रकम अभिप्रेत है जिसमें भाड़े या परिदान की लागत के लिए कोई प्रभार सम्मिलित है किन्तु तैयार उत्पाद के रूप में वैद्युत केबिलों और तारों पर करों के रूप में प्रभावित कोई राशि सम्मिलित नहीं है।

3. विक्रय कीमत का नियंत्रण :—कोई विनिर्माता या व्यवहारी या अन्य व्यक्ति खंड 4 के अनुसरण में नियत विक्रय कीमत से अधिक विक्रय कीमत के लिए भारत में विनिर्मित किसी

वैद्युत कबिन और तार, का विक्रय या विक्रय के लिए करार नहीं करेगा या उन्हें अन्यथा व्ययनित नहीं करेगा।

4. **विक्रय-कीमत का नियतन:**—केन्द्रीय सरकार या नियंत्रक भारत में विनिर्मित वैद्युत केबिलों या तारों के प्राक्कलित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनिर्मित वैद्युत केबिलों या तारों की कीमत नियत कर सकेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न कारखानों में विनिर्मित विभिन्न प्रकार की वैद्युत केबिलों या तारों की बाबत विभिन्न विक्रय-कीमत नियत की जा सकेंगी।

5. **कीमत-सूची का कारबार के स्थान पर संप्रवर्णित किया जाना:**—हर व्यवहारी परिसर के जहां वह वैद्युत केबिलों या तारों का अपना कारबार करता है, सहज दृश्य भाग में उसके द्वारा विक्रय के लिए रखे गये वैद्युत केबिलों या तारों की विक्रय-कीमत की सूची इस प्रकार संप्रवर्णित करेगा कि वह किसी ग्राहक द्वारा पढ़ी जाने के लिए सुगमता से पहुंच में हों।

6. **विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा विक्रय का विधार्जित न किया जाना:**—कोई विनिर्माता या व्यवहारी भारत में विनिर्मित और उसके द्वारा सामान्यतया विक्रय के लिए रखी गई वैद्युत केबिलों या तारों विक्रय के विद्युत विधार्जित नहीं करेगा।

7. **निर्देश देने, जानकारी मांगने आदि की शक्ति:**—नियंत्रक, आदेश द्वारा:—

- (क) किसी विनिर्माता या व्यवहारी को वैद्युत तारों और केबिलों के विनिर्माण या क्रय या विक्रय या उन में अन्य संव्यवहार संबंधी ऐसे अभिलेख बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकेगा जैसा कि नियंत्रक आदेश में विनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) ऐसी रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें विनिर्माता या व्यवहारी वैद्युत तारों और केबिलों के किसी विनिर्माण या क्रय या विक्रय या उनमें अन्य संव्यवहार क लेखे रखेगा ;
- (ग) किसी विनिर्माता या व्यवहारी से ऐसी कालावधि या ऐसी अंतरालों के भीतर वैद्युत तारों या केबिलों के विनिर्माण या क्रय या विक्रय या उनमें अन्य संव्यवहार संबंधी ऐसी जानकारी, विवरणियां या रिपोर्टें ऐसे रूप में देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ;
- (घ) वैद्युत केबिलों और तारों के जिसमें उसके अधिमानक उत्पादन सम्मिलित हैं, व्ययन के लिए और रद्दी के प्रसंस्करण के लिए किसी विनिर्माता या व्यवहारी को निर्देश दे सकेगा ;
- (६०) किसी विनिर्माता या व्यवहारी को ऐसे अन्य निर्देश जारी कर सकेगा जैसे इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

8. प्रवेश करने, तलाशी करने, अभिग्रहण करने आदि की शक्ति :—

कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार या अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा इस नामित प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश के उपबन्धों का पालन किया गया है :

- (1) किसी भी परिवार, किसी भी यान या जलयान में, जिसकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास विश्वास करने का ऐसा कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश और तलाशी कर सकेगा या किसी भी व्यक्ति को प्रवेश या तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;
- (11) वैद्युत केबलों या तारों का अभिग्रहण कर सकेगा या उसका अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा, जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का ऐसा कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 102 और 103 के उपबन्ध यावश्यक इस खंड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

9. आदेशों और निदेशों का अनुपालन—हर विनिर्माता या व्यवहारी, जिसको इस आदेश के अधीन कोई आदेश या निदेश जारी किया गया है, ऐसे आदेश या निदेश का अनुपालन करेगा ।

अनुसूची

[खंड 2 (ग) देखें]

वैद्युत केबलों और तारों के प्रकार]

1. सभी सेक्शनों की लंगी तांबे की छड़ें, तारें और पट्टियां ।
2. गुप्तित तांबा चालक ।
3. सभी सेक्शनों की इनेमलित तांबे/एलुमिनियम की छड़ें, तारें और पट्टियां ।
4. सभी सेक्शनों की सूत, रेशम, कागज, तंतु, कांच के टेप, आदि चढ़ी हुई तांबे/एलुमिनियम की छड़ें, तारें और पट्टियां ।
5. टीन और/या अन्य धातु चढ़ी हुई सभी सेक्शनों की तांबे/एलुमिनियम की छड़ें, तारें और पट्टियां ।
6. तांबा और फ्यज तार ।

7. तांबा मढ़ा इस्पात का तार ।
8. खांचेदार संस्पर्श तार ।
9. तांबा/ऐलुमिनियम चालकों सहित कागज—रोधी मढ़ा केबिल ।
10. तांबा/ऐलुमिनियम चालकों सहित रबड़ रोधी सीसा मढ़ा केबिल ।
11. तांबा/ऐलुमिनियम चालकों सहित रबड़ रोधी नम्य भूस्तारी केबिल ।
12. पी० वी० सी०/पॉलिएथिलीन/क्रास [प्रथित पॉलिएथिलीन/तांबा ऐलुमिनियम चालकों सहित प्लास्टिक केबिल ।
13. इस्पात प्रबलित ऐलुमिनियम चालक/सभी ऐलुमिनियम चालक ।
14. संचार के लिए समक्ष और शुष्क क्रोड केबिल ।
15. ऊपर अवर्णित तांबा / ऐलुमिनियम चालक सहित अन्य प्रकार के केबिल ।

टिप्पण :—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए :—

- (1) “तांबे” से विद्युत-अपघटनी तांबा (भा० मा: 1964 का 613) अभिप्रेत है ।
- (2) “ऐलुमिनियम” से विद्युत अपघटनी ऐलुमिनियम (भा मा 1967 का 4026) अभिप्रेत है ।

[स० फा० 26(18) सी० एस० II/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 26th December 1970

S.O. 4094.—In pursuance of clause (a), paragraph 2 of the Electrical Cables and Wires Control Order, 1970, the Central Government hereby appoints Shri R. K. Talwar, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Industrial Development and Internal Trade, to perform the functions of Controller under the said Order.

[No. F. 26(18)C.S. II/70.]

B. D. PANDE, Secy.

(आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1970

फा० आ० 4094.—वैद्युत केबिल और तार नियन्त्रण आदेश 1970, के पैरा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय को उक्त आदेश के अधीन नियंत्रक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है।

[सं० फा० 26 (18) सी० एस० II/70]

बी० डी० पाण्डे, सचिव।

